

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 10—मई 16, 2014 (वैसाख 20, 1936)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10—MAY 16, 2014 (VAISAKHA 20, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 अप्रैल 2014

सं. डीपीपर्स.1/2014/0058/3/77/2011-पर्स.1--श्री देबाशीष धर, पुलिस उपाधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ईओडब्ल्यू, कोलकाता की सेवाएं प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप दिनांक 10.03.2014 (पूर्वाहन) से उनके मूल विभाग अर्थात् पश्चिम बंगाल पुलिस को वापस सौंपी जाती हैं।

हस्ता. अपठनीय
उप निदेशक (कार्मिक)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
महासर्वेक्षक का कार्यालय
देहरादून-248001, दिनांक 19 मार्च 2014

सं. सी-1655/1800(1)—निम्नलिखित मानचित्रकार डीविजन-I (ग्रुप बी अराजपत्रित) को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर मुख्य मानचित्रकार (ग्रुप बी राजपत्रित अलिपिक वर्गीय) के पद पर पी0बी0-02 में रुपये 9,300-34,800+ग्रेड पे रुपये 4600/- में पदोन्नति की जाती है:-

क्रम संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री गणेश चन्द्र साहु	21-10-2013
2.	श्री भास्कर चन्द्र रथ	21-10-2013
3.	श्री महेश्वर साहु	27-01-2014
4.	श्री सोहन लाल नूर (अनुसूचित जाति)	01-11-2013
5.	श्री डी. रघु रामलु (अनुसूचित जाति)	11-10-2013
6.	श्री जितेन्दर रघुवंशी	21-01-2014(अप0)
7.	श्री प्रकाश चन्द्र नायक	21-01-2014(अप0)
8.	श्री पी0 सुब्रमनियम (अनुसूचित जाति)	24-01-2014

स्वर्ण सुब्बा राव
भारत के महासर्वेक्षक

दिनांक 1 अप्रैल 2014

सं. सी.-1957/718-ए—निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर पी0बी0-2 में रुपये 9,300-34,800 ग्रेड पे रुपये 4,600/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्रम.सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री के0 एम0 शर्मा	23-12-2013
2.	श्री श्याम सुन्दर दास (अनु.जाति)	21-06-2013
3.	कु0 बी0डी0 मर्सिना	19-12-2013
4.	श्री ए0 के0 सक्सेना	18-12-2013
5.	श्री दिनेश चन्द्र वर्मा (अनु.जाति)	01-01-2014
6.	श्री एम0 एस0 बारिक	01-01-2014

स्वर्ण सुब्बा राव
भारत के महासर्वेक्षक

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 31 मार्च 2014

सं. 19024/8/2011 -प्रशा.।—सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री जे. कृष्णमूर्ति, वरिष्ठ रसायनज्ञ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, चेन्नई, दिनांक 28-02-2014 (अपरान्ह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

एम. एल. सिक्का
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

(नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र)

हैदराबाद-500 062, दिनांक 22 अप्रैल 2014

सं. नाईस/काप्रभ 1./03/01/637--राष्ट्रपति द्वारा, श्री पिट्टला सुरेश को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन बैंड-3 में रु.15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु. 5,400/- सहित दिनांक 28.11.2013 के पूर्वाह्न से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी /सी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ 1./03/03/638--राष्ट्रपति द्वारा, श्री डी. पंढरीनाथ को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन बैंड-3 में रु.15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु. 5,400/- सहित दिनांक 03.01.2014 के पूर्वाह्न से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी /सी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ 1./03/03/639--राष्ट्रपति द्वारा, श्री जी. प्रहलाद को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन बैंड-3 में रु.15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु. 5,400/- सहित दिनांक 06.01.2014 के पूर्वाह्न से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी /सी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ 1./03/03/640--राष्ट्रपति द्वारा, श्री जे. प्रपुल चंद्र को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन बैंड-3 में रु.15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु. 6,600/- सहित दिनांक 28.12.2013 के पूर्वाह्न से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी /डी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ 1./03/03/641--राष्ट्रपति द्वारा, श्री पुर्नार्या दाराजुला को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन बैंड-3 में रु.15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु. 6,600/- सहित दिनांक 12.12.2013 के पूर्वाह्न से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी /डी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ 1./03/03/642--राष्ट्रपति द्वारा, श्री नायर मजेश को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन बैंड-3 में रु.15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु. 6,600/- सहित दिनांक 26.12.2013 के पूर्वाह्न से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी /डी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ 1./03/03/643--राष्ट्रपति द्वारा, श्री वोटारी नटराज को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन बैंड-3 में रु.15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु. 6,600/- सहित दिनांक 27.12.2013 के पूर्वाह्न से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी /डी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ 1./03/03/644--राष्ट्रपति द्वारा, श्री के. वीरान्जनेया रेड्डी को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन बैंड-3 में रु.15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु. 6,600/- सहित दिनांक 14.11.2013 के पूर्वाह्न से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी /डी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

कार्यालय—मुख्य वास्तुक (नई दिल्ली क्षेत्र)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2014

सं. 27 / 248 / 1998—मु.वा.(न.दि.क्षे.)/स्था./43— श्रीमती शारदा ओबरॉय, तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली की मिसिल सं. 27 / 248 / 1998—मु0वा0(न0दि0क्षे0)/स्था. अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 30.01.2014(अप.) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

नवीन भटनागर
वास्तुक(मुख्यालय एवं योजना)

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली—110019, दिनांक 23 अप्रैल 2014

सं. कर/दिल्ली/560(5)/एफटीई—2011/800— कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं।

SL. No	CIN	COMPANY NAME
1	2	3
1	U72900DL2002PTC116250	एसीई इन्फोकाम प्राइवेट लिमिटेड
2	U74899DL1994PTC058537	एकान कन्सट्रक्शन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
3	U40106HR2010PTC040179	एडवान्स सोलर पावर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
4	U18202DL2009PTC190313	एडके लव फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U70101DL2005PTC137965	आईना फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
6	U63013DL2006PTC147871	एलाइन्स कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
7	U45200DL2011SGC216436	एपी लैण्ड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
8	U10300DL2008PTC174371	एप्पल मैटमाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U13203DL1997PTC085516	एआरजी फुआल्स प्रा० लि०
10	U24220DL2009PTC187166	एरोमा पिगमैन्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
11	U25209DL2010PTC198411	एस्पेन पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U72200DL2011FTC223924	अश्वथा इन्टरटेनमेन्ट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
13	U70109DL2006PTC152899	एवीबी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U67120DL1996PTC082869	एयोनिजा इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
15	U17122DL2007PTC163315	बी.एम. एम्पैरल्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U74899DL1995PTC064414	बेडेक स्टेट्स एण्ड प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
17	U74999HR2010FTC040266	बेमो प्रोजेक्ट्स इन्जीनियरिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
18	U25201DL1997PTC084260	बेनटेक्स पालीमर्स प्रा० लि०
19	U74899DL1991PTC044291	बर्ड इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
20	U17219HR2013PTC049310	बीएलजी काटस्यन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
21	U55101DL2005PTC141878	बीएनके होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U29230DL1999PTC100838	बोर्ट लांगईयर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
23	U45203DL2006PLC147847	ब्रह्मपुत्र हाऊसिंग एण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
24	U65992DL1993PTC056407	बुलियन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U51909DL2005PTC139738	सी.एस. डिजाइनर्स आईवियर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
26	U74900DL2011PTC215684	कैन फास्ट इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड
27	U15500DL2012PTC234723	सीसीआईयुएस बेवेरेज्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U80101DL2006PTC147718	सीईसीएन स्कूल्स एण्ड इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
29	U72200DL2005PTC135300	चङ्ढा साफटेक प्राइवेट लिमिटेड
30	U80300DL2008PTC178257	चित्तकारा एज्युकेशन प्राइवेट लिमिटेड
31	U51909DL2004PTC126950	सीएमजी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U72900DL2007PTC159623	कोलएसेन्ट टेक्नालाजिस प्राइवेट लिमिटेड
33	U92113DL1998PTC093537	काउन्टर पुआइंट प्रोडक्शन एण्ड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
34	U74140DL2008PTC181304	डेकी कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
35	U18101DL2004PTC126059	दावर फैशन प्राइवेट लिमिटेड
36	U72900DL2011PTC217105	डेक्स इनफार्मेशन टेक्नालाजी प्राइवेट लिमिटेड
37	U24233DL1996PTC083131	डाक्टर्स आयुर्वेदिक रिसर्च लैबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड
38	U67190DL2012PTC244831	डीएसएस फायनेन्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
39	U74900HR2011PTC042673	एनटाइस फोर्मा साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U17211DL1998PTC092886	एस्सक्वायर फर्नीसिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
41	U72300DL2012PTC242934	एटेक लीजेन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U41000DL2012PTC232041	फ्लुरिडा टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड
43	U72200DL2012PTC240240	फोर ब्रो प्राइवेट लिमिटेड
44	U74999DL2005PTC134701	फोर स्कवायर एक्जिबिशनस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
45	U51909DL2012PTC234800	ग्लाइजेन इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
46	U63000DL2012PTC238233	ग्लाइवेंट दुअर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
47	U40102DL2010PTC207303	जीएएनएम प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड
48	U52339HR2008PTC037868	जार्ज हाउस एप्पैरल्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U74900DL2009PTC196027	जीएनके कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U74900DL2011PTC216708	गोल्डन ट्री सर्विसेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
51	U74899DL1992PTC047710	ग्री हाउन्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
52	U74140DL2010PTC204312	हेलिओट्रापी कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
53	U92120DL2008PTC174147	हार्ड लाइफ इन्टरटेनमेन्ट नेटवर्कस प्राइवेट लिमिटेड
54	U93000DL2011PTC221868	आइडियटिंगलाइफ आनलाइन साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
55	U62200DL2009PTC189795	इम्पीरियल जेटस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
56	U70200DL2010PLC208848	इण्डियाबुल्स बिल्डटेक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड
57	U70200DL2010PLC201395	इण्डियाबुल्स प्रोपर्टी बिल्डटेक लिमिटेड
58	U74999DL2013PTC250119	इन्फारमेज पावरवन प्राइवेट लिमिटेड
59	U74140HR2010PTC041269	जब ग्रीन एनर्जी कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
60	U24211DL2005PTC132758	जगदम्बे क्राप केयर प्राइवेट लिमिटेड
61	U25209DL1997PTC090777	जिन्दल पालीटेक प्राइवेट लिमिटेड
62	U51909DL2010PTC201824	जेएसएनके इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U70101DL2012PTC244874	कोडन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
64	U40200DL2010PTC205553	केयू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
65	U40107DL2010PTC203806	केयू पावरजेनकाम प्राइवेट लिमिटेड
66	U31401DL2009PTC186763	महालक्ष्मी इनडलैक्ट प्राइवेट लिमिटेड
67	U74120DL2004PTC127004	मल्होत्रा कावीट कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
68	U74140DL2008PTC186146	मानेसर मैनेजमेन्ट कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड
69	U74899DL1994PLC061492	मेयफेयर फिनलीज इण्डिया लिमिटेड
70	U70101DL2010PTC210569	एमबीए प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड
71	U74900DL2013PTC248657	मेड्रा नालेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
72	U45400DL2010PTC201416	माइकल प्रोजेक्टस एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
73	U24100DL2010PTC211029	माइक्रो केम एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड
74	U74300DL1993PTC054395	मोना एडवरटाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
75	U72100DL1993PTC052681	मौजैक कम्प्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड
76	U93000DL2012PTC246803	एमएस रिक्रयुमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
77	U80302DL1998PTC092249	एमएसए इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
78	U36103HR2010PTC040253	एन जी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड
79	U27104DL2005PTC136813	न्यु वे स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
80	U51311DL1998PTC092700	न्युऐज गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
81	U60231DL2006PTC156518	एनकेएस शिपिंग एण्ड लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
82	U93000HR2009PTC038977	नोबल एडस प्राइवेट लिमिटेड
83	U74900DL2009PTC187582	ओपिक इण्डिया टैलेन्ट साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
84	U80301DL2003PTC120055	ओरेन्जस लर्निंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
85	U74140DL2012PLC242015	ओरटस टेक्नोलाजिस लिमिटेड
86	U72211DL2008PTC183506	अवर आईटी विजन प्राइवेट लिमिटेड
87	U74140HR2008PTC038466	ओक्सालिस कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
88	U45400DL2008PTC185188	पाम बीच इन्फ्रा साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
89	U15500DL2011PTC224410	पैराडाइज बेवेरज्स एण्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
90	U70109DL2007PTC157501	पसिम रिअलटेक प्राइवेट लिमिटेड
91	U72900DL2013PTC247337	पीसी सागा टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
92	U17200DL2012PTC239254	पीआईपीआईएफ होम एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड
93	U25200DL2011PTC219392	पूजा टेक्नाप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
94	U72200DL2005PTC138559	प्रोग्रेसिव साफटेक प्राइवेट लिमिटेड
95	U74140DL2007PTC159117	प्रोमोद मैनेजमेन्ट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
96	U32107HR2010PTC041057	परसेल सिस्टम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
97	U74899DL1995PTC064902	क्वालिटी सिक्वोरिटी सर्विसेज प्रा० लि०
98	U74999DL2004PTC130633	क्विकसिल्वर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
99	U74899DL2001PTC109614	आर. तलवार प्रोपर्टी एण्ड कन्सल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
100	U74899DL1989PTC037803	आर.आर. आइसोलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
101	U17121DL2007PTC164070	राधे कृष्णा हैन्डलूम्स प्राइवेट लिमिटेड
102	U74899DL1992PTC050886	रामा जेम प्राइवेट लिमिटेड
103	U70100HR2010PTC041622	रनधीर रिअल स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
104	U70100DL2012PTC237795	आरईडीसी रेलिको प्राइवेट लिमिटेड
105	U19201DL1996PTC081948	रिसोर्सस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
106	U74140DL2008PTC180999	रिर्काडो मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
107	U74900DL2012PTC237835	आरकेएसएम कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड
108	U31109DL2002PTC117349	रुद्रा बैट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
109	U74140DL2011PTC223741	एस एन रिअलटेक प्राइवेट लिमिटेड
110	U51103DL2008PTC182930	साई एअरकंडिशनिंग इक्युपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
111	U74120DL2008PTC185908	साई राम होम केयर प्राइवेट लिमिटेड
112	U74900DL2008PTC183498	सन्तोष डायमन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
113	U34300DL1999PTC101757	सेगा आटो प्राइवेट लिमिटेड
114	U51900DL2010PTC208534	सेवा परिवार एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड
115	U45400DL2011PTC221565	शाह इनप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
116	U45400DL2008PTC174635	शीतला स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड
117	U41000DL2011PTC219888	शुधा एक्वा प्राइवेट लिमिटेड
118	U74120DL2008PTC185068	सिंह एण्ड कासमॉस लीगल ट्रिपाड (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
119	U72200DL2000PTC107761	शिवलिंग फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
120	U74900DL2011PTC220798	एसके बायोसाइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
121	U63000DL2012PTC240828	सिप्रिंग ट्रैवल्स आनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
122	U10200DL2011PTC222576	एसआर मार्निंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
123	U74140HR2011PTC044712	श्रवंधी ओ एण्ड एम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
124	U40101HR2010PTC041219	श्रवंधी सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
125	U18101DL1998PTC093112	एसआरएल एक्विम प्राइवेट लिमिटेड
126	U74920DL1998PTC093965	स्ट्रुलिंग रक्षक प्राइवेट लिमिटेड
127	U29200DL2012PTC234307	सुन्दर टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
128	U85190DL2011PTC221236	सूर्या मैडीवैल प्राइवेट लिमिटेड
129	U45200DL2008PTC173411	एसवी इन्फ्राटेक साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
130	U74899DL1993PTC052124	टेक्निप जीईओ काम्पैलक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
131	U74900DL2008PTC177820	त्रैयाब्रिज एडवाइजर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
132	U45200DL2007PTC158131	टुकराल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
133	U93000HR2012PTC047458	ऊर्वी वैलनेस प्राइवेट लिमिटेड
134	U63030DL2012PTC230993	यूस डिपर ट्रान्सपोर्टल प्राइवेट लिमिटेड
135	U74899DL1986PTC026220	वचित्रा लाल प्राइवेट लि0 प्राइवेट लिमिटेड
136	U74210DL1997PTC084278	वास्तुर्कर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
137	U74899DL1994PTC059383	वीकम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
138	U72200DL2008PTC180147	वायबल आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
139	U27109DL2006PTC157072	विश फेब्रिकैटर्स एण्ड कनवर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
140	U55101HR2012PTC045165	विश्वास लीजर्स प्राइवेट लिमिटेड
141	U40102HR2011PTC041909	विश्वास सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
142	U74899DL1995PTC065218	वेल-सैट फार्मास्यूटिकल्स एण्ड ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
143	U18109DL2011PLC220404	व्हाइट कालर क्लोथिंग कम्पनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड
144	U72200DL2012PTC236086	एक्जेमा साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
145	U74300DL2005PTC140619	यलौ ट्रान्जिस्टर साल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
146	U74999DL2010PTC205214	जेवर इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
147	U52399DL2012PTC230665	जाइड्रो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2014

सं. 560(5)/209—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई है :—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन संख्या	एस आर एन संख्या
1	फ़र्स्ट इम्प्रेशन मीडिया इण्टरटैमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U22219UP2011PTC045961	B92552504
2	सर्वनिम इन्फ़ाटेक डेवलपर्स कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC053755	B94831997
3	सर्वनिम इन्फ़ाटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC053492	B94833480
4	ईस्ट मैन्वेस्टर कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP2005PTC029956	B94917085
5	सबलाइम पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC041845	B94937893
6	विब्रान्त अर्थ प्राइवेट लिमिटेड	U13203UP2012PTC048512	B94974425
7	के के के सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U72100UP1995PTC017784	B95074373
8	अलोफ़ट मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	U13209UP2012PTC048296	B95575106
9	हरीप्रिया सिक्कोरिटीस प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2008PTC035918	B95730057
10	चिन्नाश मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U65923UP2010PTC041896	B95887162
11	प्रभू शान्ती शुगर प्राइवेट लिमिटेड	U51225UP1995PTC018831	B96033576
12	श्री कैला देवी इन्फ़ालैन्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC048544	B96078217
13	स्वयम मालिनी प्रोड्यूसर कं० प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055579	B96164009
14	गंगोत्री शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70200UP2006PTC032395	B96233481
15	गुर्च फ़ूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC053350	B96345657
16	सचदेवा ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC054330	B97027031
17	वेलोज़ इन्फ़ास्ट्रक्चर एण्ड मैनेजमेंट कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2009PTC037541	B97238505

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 22 अप्रैल 2014

संख्या/क.र./प0.बं0./एफटीई/560/2014--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 5 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियों विघटित हो गई हैं।

क्र० सं०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U45400WB2012PLC182583	विल्लेजपॉइंट फ़ास्ट्रूक्चर डेवलपमेन्ट इंडिया लिमिटेड
2	U63040WB2012PTC174045	हाइड्रोवे ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U63032WB2008PTC131553	बंगाल मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U45400WB2012PTC185397	एमर्स फ़ास्ट्रूक्चर प्राइवेट लिमिटेड
5	U29299WB1985PTC039593	वेबटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

सौरभ गौतम

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 22 अप्रैल 2014

संख्या/क.र./प0.बं0./एफटीई/560/2014--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 38 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियों विघटित हो गई हैं।

क्र० सं०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	2	3
1	U67190WB2011PLC157210	रोज वैल्ली माइक्रोफ़ाइनेंस लिमिटेड
2	U93000WB2011PTC167358	अंकुर मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
3	U52190WB2012PLC184171	चक्रमार्ट रिटेल इंडिया लिमिटेड
4	U70109WB2012PLC181865	सोनारतोरी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड
5	U61200WB2001PTC094054	सीग्लोरी शीपिंग प्राइवेट लिमिटेड
6	U52100WB2007PTC117320	पुष्पांजली कोमोडील प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
7	U74140WB2008PTC126550	पैथेयो कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
8	U51909WB1994PTC063622	गंगावती डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U27100WB2007PTC115569	जय दादा इस्पात प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U70102WB2011PTC157494	दिशा निकेतन प्राइवेट लिमिटेड
11	U74200WB2010PTC142956	मोडुलर इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U63000WB2010PLC154670	स्पोलाइट ट्रांस लोजीस्टिक्स लिमिटेड
13	U72200WB2006PTC108669	इनोवा इन्फोकोण प्राइवेट लिमिटेड
14	U72200WB2009FTC135452	सीएमए सीजीएम सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	U51909WB2011PTC168229	लाइफस्टाइल ऑटोसिटी प्राइवेट लिमिटेड
16	U51909WB1997PLC085639	कैपट्रांस शीपिंग लिमिटेड
17	U18101WB2003PTC096540	सुरेश कुमार अग्रवाला टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U20219WB1992PTC056729	मारुति ओवर्सीस प्राइवेट लिमिटेड
19	U23201WB2002PTC095058	प्रकृति बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
20	U45400WB2008FTC129832	ग्रेटर रायगढ़ इन्फोकोण प्राइवेट लिमिटेड
21	U51909WB1991PTC052687	क्रिस्टल वल्वेस मनुफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
22	U31100WB2007PTC115448	फ्रेंसी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U52100WB2010PTC150538	पीपल ट्री मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
24	U65929WB1989PTC047526	बनलता इंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड
25	U01122WB1996PTC076766	शृष्टि हॉर्टिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
26	U27204WB2009PTC137511	गोवेल्ल मिनेरल्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U70109WB2011PTC192058	पनोरमा इन्फोकोन प्राइवेट लिमिटेड
28	U27209WB1997PTC085641	लेना ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U25200WB2009PTC140438	जंकशन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U67120WB2006PTC111275	एल एस आई पावर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
31	U72900WB2011PTC171386	थर्टीन. नेट आउटसोर्सिंग सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड
32	U74993WB2009PTC138913	बी पी विडियो एनालीटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U32109WB1981PTC033537	बोस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U74999WB1993PTC058794	मेटकाफ़ टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
35	U40300WB2010PLC143755	एमर्स पावर लिमिटेड
36	U60100WB2005PTC102182	कंट्रीवाइड हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
37	U60100WB2005PTC102362	इनलैंड लोजीस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U16002WB1964PTC026247	मंटु बिरि फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कोचिन अलयन्स बैंक लिमिटेड के बारे में U65110KL1927PLC000177
कोच्चि, दिनांक 24 अप्रैल 2014

सं. 560.(3)/एम सी ए आर ओ सी एरनाकुलम 560/2014/00003—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि अगर कारण न दिए तो मैसर्स कोचिन अलयन्स बैंक लिमिटेड का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कंपनी विघटित हो जाएगी।

के जी जोसफ जाक्सन
कंपनी पंजीयक
केरल एण्ड लक्षद्वीप

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 17th April 2014

No. DPPERS.I/2014/0058/3/77/2011-Pers.I--Services of Shri Debasish Dhar, Dy. Supdt. of Police, CBI, EOW, Kolkata have been placed back on repatriation at the disposal of his parent department i.e. West Bengal Police w.e.f. 10.3.2014 (FN).

Sd/ ILLEGIBLE
Dy. Director (Pers)

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the 19th March 2014

No C-1655/1800(1)--The undermentioned Draftsman Division-I (Group 'B' Non-Gazetted) are promoted as Chief Draftsman, Group 'B' Post (Gazetted, Non Ministerial) in Survey of India on regular basis in PB-2 of Rs.9,300--34,800/- + Grade Pay Rs.4600/- with effect from the date(s) as shown against their names:--

<u>Sl. No.</u>	<u>Name</u>	<u>Date of Promotion</u>
1.	Shri Ganesh Chandra Sahoo	21-10-2013
2.	Shri Bhaskar Chandra Rath	21-10-2013
3.	Shri Maheswar Sahu	27-01-2014
4.	Shri Sohan Lal Nur (SC)	01-11-2013
5.	Shri D.Raghu Ramulu (SC)	11-10-2013
6.	Shri Jitender Raghuvanshi	21-01-2014 (AN)
7.	Shri Prakash Chandra Nayak	21-01-2014 (AN)
8.	Shri P. Subramaniam (SC)	24-01-2014

SWARNA SUBBA RAO
Surveyor General of India

The 1st April 2014

No.C- 1957 /718-A --The undermentioned Office Superintendents are hereby promoted to the post of Establishment & Accounts Officer (GCS Group 'B' Gazetted) in Survey of India in PB-2 Rs.9,300--34,800+4600 Grade Pay on regular basis with effect from the dates as shown against their names:--

<u>Sl. No.</u>	<u>Name</u>	<u>Date of Promotion</u>
1.	Shri.K.M.Sharma	23-12-2013
2.	Shri Shyam Sunder Das (SC)	21-06-2013
3.	Km B D Mercina	19-12-2013
4.	Shri A K Saxena	18-12-2013
5.	Shri Dinesh Chandra Verma (SC)	01-01-2014
6.	Shri M.S. Barik	01-01-2014

SWARNA SUBBA RAO
Surveyor General of India

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabd, the 31st March 2014

No. A-19024/8/2011-A.I--On attaining the age of superannuation, Shri J. Krishnamurthy, Senior Chemist, Directorate of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, Chennai has retired from Government service with effect from 28th February, 2014 (afternoon).

M. L. SIKKA
Under Secy.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 22nd April 2014.

No. NFC/PAR-I/03/01/637--The President is pleased to appoint Shri Pittala Suresh, as Technical Officer/C in the Pay Band 3 of Rs.15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs.5,400/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from the forenoon of 28.11.2013 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

No. NFC/PAR-I/03/03/638--The President is pleased to appoint Shri D Pandarinath, as Technical Officer/C in the Pay Band 3 of Rs.15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from the forenoon of 03.01.2014 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

No. NFC/PAR-I/03/03/639--The President is pleased to appoint Shri G Prahalad, as Technical Officer/C in the Pay Band 3 of Rs.15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs.5,400/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from the forenoon of 06.01.2014 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

No. NFC/PAR-I/03/03/640--The President is pleased to appoint Shri J Prapul Chandra, as Technical Officer/D in the Pay Band 3 of Rs.15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs.6,600/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from the forenoon of 28.12.2013 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

No. NFC/PAR-I/03/03/641-- The President is pleased to appoint Shri Purnaiah Darajula, as Technical Officer/D in the Pay Band 3 of Rs.15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs.6,600/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from the forenoon of 12.12.2013 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

No. NFC/PAR-I/03/03/642-- The President is pleased to appoint Shri Nair Majesh, as Technical Officer/D in the Pay Band 3 of Rs.15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs.6,600/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from the forenoon of 26.12.2013 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

No. NFC/PAR-I/03/03/643--The President is pleased to appoint Shri Votari Natraj, as Technical Officer/D in the Pay Band 3 of Rs.15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs.6,600/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from the forenoon of 27.12.2013 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

No. NFC/PAR-I/03/03/644--The President is pleased to appoint Shri K Veeranjaneya Reddy, as Technical Officer/D in the Pay Band 3 of Rs.15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs.6,600/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from the forenoon of 14.11.2013 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 30th January, 2014.

No. 27/248/1988-CA(NDR)/Estt.--Consequent upon his attaining the age of superannuation, Smt. Sharda Oberoi, Technical Officer, Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 retires from government service with effect from the afternoon of 31.01.2014.

NAVEEN BHATNAGAR
Architect (HQ-cum-Planning)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

New Delhi-110019, the 23rd April 2014

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following companies

No. RoC/Delhi/560(5)/FTE-2011/800--Notice is hereby given pursuant to sub-section(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved:--

SL. No	CIN	COMPANY NAME
1	2	3
1	U72900DL2002PTC116250	ACE INFOCOM PRIVATE LIMITED
2	U74899DL1994PTC058537	ACON CONSTRUCTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3	U40106HR2010PTC040179	ADVANCE SOLAR POWER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4	U18202DL2009PTC190313	AEK LUV FASHIONS PRIVATE LIMITED
5	U70101DL2005PTC137965	AIANA FARMS PRIVATE LIMITED
6	U63013DL2006PTC147871	ALLIANCE CARGO PRIVATE LIMITED
7	U45200DL2011SGC216436	AP LAND & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED
8	U10300DL2008PTC174371	APPLE METMINES PRIVATE LIMITED
9	U13203DL1997PTC085516	ARG FOILS PVT LTD
10	U24220DL2009PTC187166	AROMA PIGMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
11	U25209DL2010PTC198411	ASPEN POLYMERS PRIVATE LIMITED
12	U72200DL2011FTC223924	ASVATHAA ENTERTAINMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
13	U70109DL2006PTC152899	AVB PROJECTS PRIVATE LIMITED
14	U67120DL1996PTC082869	AYONIJA INVESTMENT PRIVATE LIMITED
15	U17122DL2007PTC163315	B.M. APPARELS PRIVATE LIMITED

1	2	3
16	U74899DL1995PTC064414	BEDECK ESTATES AND PROPERTIES PRIVATE LIMITED
17	U74999HR2010FTC040266	BEMO PROJECT ENGINEERING (INDIA) PRIVATE LIMITED
18	U25201DL1997PTC084260	BENTEX POLYMERS PVT LTD
19	U74899DL1991PTC044291	BIRD INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
20	U17219HR2013PTC049310	BLG COTSYN INDIA PRIVATE LIMITED
21	U55101DL2005PTC141878	BNK HOTELS PRIVATE LIMITED
22	U29230DL1999PTC100838	BOART LONGYEAR INDIA PRIVATE LIMITED
23	U45203DL2006PLC147847	BRAHMAPUTRA HOUSING & URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED
24	U65992DL1993PTC056407	BULLION CHITS PRIVATE LIMITED
25	U51909DL2005PTC139738	C.S.DESIGNERS EYEWEAR INDIA PRIVATE LIMITED
26	U74900DL2011PTC215684	CAN FAST IMMIGRATION PRIVATE LIMITED
27	U15500DL2012PTC234723	CCOEUS BEVERAGES PRIVATE LIMITED
28	U80101DL2006PTC147718	CECN SCHOOLS AND ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
29	U72200DL2005PTC135300	CHADHA SOFTECH PRIVATE LIMITED
30	U80300DL2008PTC178257	CHITKARA EDUCATION PRIVATE LIMITED
31	U51909DL2004PTC126950	CMG EXPORTS PRIVATE LIMITED
32	U72900DL2007PTC159623	COALESCENT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
33	U92113DL1998PTC093537	COUNTER POINT PRODUCTION AND MEDIA PRIVATE LIMITED
34	U74140DL2008PTC181304	DAIKI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
35	U18101DL2004PTC126059	DAWAR FASHION PRIVATE LIMITED
36	U72900DL2011PTC217105	DEX INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
37	U24233DL1996PTC083131	DOCTORS AYURVEDIC RESEARCH LABORATORY PRIVATE LIMITED
38	U67190DL2012PTC244831	DSS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
39	U74900HR2011PTC042673	ENTICE PHARMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
40	U17211DL1998PTC092886	ESSQUIRE FURNISHINGS PRIVATE LIMITED
41	U72300DL2012PTC242934	ETECH LEGENDS PRIVATE LIMITED
42	U41000DL2012PTC232041	FLUIDRA TECHNO PRIVATE LIMITED
43	U72200DL2012PTC240240	FOUR BRO PRIVATE LIMITED
44	U74999DL2005PTC134701	FOUR SQUARE EXHIBITIONS PRIVATE LIMITED
45	U51909DL2012PTC234800	GALLEZEN IMPEX PRIVATE LIMITED
46	U63000DL2012PTC238233	GALLIVANT TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
47	U40102DL2010PTC207303	GANM PROJECTS PRIVATE LIMITED
48	U52339HR2008PTC037868	GEORGE HOUSE APPARELS PRIVATE LIMITED
49	U74900DL2009PTC196027	GNK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
50	U74900DL2011PTC216708	GOLDEN TREE SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
51	U74899DL1992PTC047710	GREY HOUND TRAVELS PRIVATE LIMITED
52	U74140DL2010PTC204312	HELIOTROPE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
53	U92120DL2008PTC174147	HI LIFE ENTERTAINMENT NETWORKS PRIVATE LIMITED
54	U93000DL2011PTC221868	IDEATINGLIFE ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
55	U62200DL2009PTC189795	IMPERIAL JETS INDIA PRIVATE LIMITED
56	U70200DL2010PLC208848	INDIABULLS BUILDTECH LIMITED
57	U70200DL2010PLC201395	INDIABULLS PROPERTY BUILDTECH LIMITED

1	2	3
58	U74999DL2013PTC250119	INFORMAGE POWERONE PRIVATE LIMITED
59	U74140HR2010PTC041269	JAB GREEN ENERGY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
60	U24211DL2005PTC132758	JAGDAMABE CROP CARE PRIVATE LIMITED
61	U25209DL1997PTC090777	JINDAL POLYTECH PRIVATE LIMITED
62	U51909DL2010PTC201824	JSNK IMPEX PRIVATE LIMITED
63	U70101DL2012PTC244874	KODAN BUILDERS PRIVATE LIMITED
64	U40200DL2010PTC205553	KU ENERGY PRIVATE LIMITED
65	U40107DL2010PTC203806	KU POWERGENCOM PRIVATE LIMITED
66	U31401DL2009PTC186763	MAHALUXMI INFRAELECT PRIVATE LIMITED
67	U74120DL2004PTC127004	MALHOTRA CAVEAT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
68	U74140DL2008PTC186146	MANCER MANAGEMENT CONSULTING PRIVATE LIMITED
69	U74899DL1994PLC061492	MAYFAIR FINLEASE INDIA LIMITED
70	U70101DL2010PTC210569	MBA PROJECTS PRIVATE LIMITED
71	U74900DL2013PTC248657	MEDRA KNOWLEDGE SERVICES PRIVATE LIMITED
72	U45400DL2010PTC201416	MICHAL PROJECTS & MARKETING PRIVATE LIMITED
73	U24100DL2010PTC211029	MICRO CHEM EXIM PRIVATE LIMITED
74	U74300DL1993PTC054395	MONA ADVERTISING AND MARKETING PRIVATE LIMITED
75	U72100DL1993PTC052681	MOSIAC COMPUTERS PRIVATE LIMITED
76	U93000DL2012PTC246803	MS RECRUITMENT PRIVATE LIMITED
77	U80302DL1998PTC092249	MSA INFOTECH PRIVATE LIMITED
78	U36103HR2010PTC040253	N G JEWELLERS PRIVATE LIMITED
79	U27104DL2005PTC136813	NEW WAY STEELS PRIVATE LIMITED
80	U51311DL1998PTC092700	NEWAGE GARMENTS PRIVATE LIMITED
81	U60231DL2006PTC156518	NKS SHIPPING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED
82	U93000HR2009PTC038977	NOBLE ADS PRIVATE LIMITED
83	U74900DL2009PTC187582	OPIC INDIA TALENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
84	U80301DL2003PTC120055	ORANGES LEARNING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
85	U74140DL2012PLC242015	ORTUS TECHNOLOGIES LIMITED
86	U72211DL2008PTC183506	OUR IT VISION PRIVATE LIMITED
87	U74140HR2008PTC038466	OXALIS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED.
88	U45400DL2008PTC185188	PALM BEACH INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
89	U15500DL2011PTC224410	PARADISE BEVERAGES & FOODS PRIVATE LIMITED
90	U70109DL2007PTC157501	PASSIM REALTECH PRIVATE LIMITED
91	U72900DL2013PTC247337	PC SAGA TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
92	U17200DL2012PTC239254	PIPIF HOME ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
93	U25200DL2011PTC219392	POOJA TECHNOPLAST PRIVATE LIMITED
94	U72200DL2005PTC138559	PROGRESSIVE SOFTECH PRIVATE LIMITED
95	U74140DL2007PTC159117	PROMOD MANAGEMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED
96	U32107HR2010PTC041057	PURCELL SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
97	U74899DL1995PTC064902	QUALITY SECURITY SERVICES PVT LTD
98	U74999DL2004PTC130633	QUICKSILVER OUTSOURCING PRIVATE LIMITED

1	2	3
99	U74899DL2001PTC109614	R. TALWAR PROPERTY AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
100	U74899DL1989PTC037803	R.R. ISOLATORS PRIVATE LIMITED
101	U17121DL2007PTC164070	RADHE KRISHNA HANDLOOM PRIVATE LIMITED
102	U74899DL1992PTC050886	RAMA GEM PRIVATE LIMITED
103	U70100HR2010PTC041622	RANDHIR REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
104	U70100DL2012PTC237795	REDC RELICO PRIVATE LIMITED
105	U19201DL1996PTC081948	RESDURCERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
106	U74140DL2008PTC180999	RICARDO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
107	U74900DL2012PTC237835	RKSM CONSULTING PRIVATE LIMITED
108	U31109DL2002PTC117349	RUDRA BATTERIES PRIVATE LIMITED
109	U74140DL2011PTC223741	S N REALTECH PRIVATE LIMITED
110	U51103DL2008PTC182930	SAI AIRCONDITIONING EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
111	U74120DL2008PTC185908	SAI RAM HOME CARE PRIVATE LIMITED
112	U74900DL2008PTC183498	SANTOSH DIAMONDS PRIVATE LIMITED
113	U34300DL1999PTC101757	SEGA AUTO PRIVATE LIMITED.
114	U51900DL2010PTC208534	SEWA PARIVAR EXIM PRIVATE LIMITED
115	U45400DL2011PTC221565	SHAH INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
116	U45400DL2008PTC174635	SHEETLA STATIONERY PRIVATE LIMITED
117	U41000DL2011PTC219888	SHUDH AQUA PRIVATE LIMITED
118	U74120DL2008PTC185068	SINGH & COSMOS LEGAL TRIPOD (INDIA) PRIVATE LIMITED
119	U72200DL2000PTC107761	SIVLING PHARMA PRIVATE LIMITED
120	U74900DL2011PTC220798	SK BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED
121	U63000DL2012PTC240828	SPRING TRAVELS ONLINE PRIVATE LIMITED
122	U10200DL2011PTC222576	SR MINING PROJECTS PRIVATE LIMITED
123	U74140HR2011PTC044712	SRAVANTHI O & M SERVICES PRIVATE LIMITED
124	U40101HR2010PTC041219	SRAVANTHI SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
125	U18101DL1998PTC093112	SRL EXIM PRIVATE LIMITED.
126	U74920DL1998PTC093965	STERLING RAKSHAK PRIVATE LIMITED
127	U29200DL2012PTC234307	SUNDER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
128	U85190DL2011PTC221236	SURYA MEDIWELL PRIVATE LIMITED
129	U45200DL2008PTC173411	SV INFRATRACK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
130	U74899DL1993PTC052124	TECHNIP GEO COMPLEX INDIA PRIVATE LIMITED
131	U74900DL2008PTC177820	TERABRIDGE ADVISORS INDIA PRIVATE LIMITED
132	U45200DL2007PTC158131	THUKRAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
133	U93000HR2012PTC047458	URVI WELLNESS PRIVATE LIMITED
134	U63030DL2012PTC230993	USE DIPPER TRANSPORTAL PRIVATE LIMITED
135	U74899DL1986PTC026220	VACHITRA LALL PRIVATE LTD
136	U74210DL1997PTC084278	VASTUKARS (INDIA) PRIVATE LIMITED
137	U74899DL1994PTC059383	VEEKAM EXPORTS PRIVATE LIMITED
138	U72200DL2008PTC180147	VIALE AUTOMATION PRIVATE LIMITED
139	U27109DL2006PTC157072	VISH FABRICATORS & CONVERTORS PRIVATE LIMITED
140	U55101HR2012PTC045165	VISHVAS LEISURES PRIVATE LIMITED

1	2	3
141	U40102HR2011PTC041909	VISHVAS SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
142	U74899DL1995PTC065218	WELL-SET PHARMACEUTICALS AND DRUGS PRIVATE LIMITED
143	U18109DL2011PLC220404	WHITE COLLAR CLOTHING COMPANY LIMITED
144	U72200DL2012PTC236086	XEMA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
145	U74300DL2005PTC140619	YELLOW TRANSISTOR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
146	U74999DL2010PTC205214	ZEVER INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
147	U52399DL2012PTC230665	ZYDROO RETAIL PRIVATE LIMITED

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following companies
Kanpur-208001, the 21st April 2014

No.LC/560(5)/Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved :-

Sl No.	Company Name	CINo.	SRN no.
1	FIRST IMPRESSION MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U22219UP2011PTC045961	B92552504
2	SWARNIM INFRA TECH DEVELOPMENT CORPORATION PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC053755	B94831997
3	SWARNIM INFRA TECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC053492	B94833480
4	EAST MANCHESTER CONSULTING PRIVATE LIMITED	U51109UP2005PTC029956	B94917085
5	SUBLIME POLYMERS PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC041845	B94937893
6	VIBRANT EARTH PRIVATE LIMITED	U13203UP2012PTC048512	B94974425
7	K K K SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72100UP1995PTC017784	B95074373
8	ALOFT MINERALS PRIVATE LIMITED	U13209UP2012PTC048296	B95575106
9	HARIPRIYA SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120UP2008PTC035918	B95730057
10	CHITRANSH MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED	U65923UP2010PTC041896	B95887162
11	PRABHU SHANTI SUGAR PRIVATE LIMITED	U51225UP1995PTC018831	B96033576
12	SHREE KAILA DEVI INFRA LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC048544	B96078217
13	SWAYAM MALINI PRODUCER COMPANY PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055579	B 96164009
14	GANGOTRI SHELTERS PRIVATE LIMITED	U70200UP2006PTC032395	B96233481
15	GOURCHE FOODS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC053350	B96345657
16	SACHDEVA BROKING PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC054330	B97027031
17	VELOCE INFRASTRUCTURE & MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U45400UP2009PTC037541	B97238505

S P KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of the following Companies

Kolkata, the 22nd April 2014

No.ROC/WB/FTE/560/2014--Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 5 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved :--

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U45400WB2012PLC182583	VILLAGEPOINT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INDIA LTD.
2	U63040WB2012PTC174045	HIDEAWAY TRAVELS PRIVATE LIMITED
3	U63032WB2008PTC131553	BENGAL MARINE EXPORTS PRIVATE LIMITED
4	U45400WB2012PTC185397	EMARS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
5	U29299WB1985PTC039593	WEBTECH (INDIA) PVT LTD

SAURABH GAUTAM
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 22nd April 2014

No. ROC/WB/FTE/560/2014--Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 38 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved :--

SL No.	CIN	Name of the Company
1	2	3
1	U67190WB2011PLC157210	ROSE VALLEY MICROFINANCE LIMITED
2	U93000WB2011PTC167358	ANKUR MULTI SERVICE PRIVATE LIMITED
3	U52190WB2012PLC184171	CHAKRAMART RETAIL INDIA LIMITED
4	U70109WB2012PLC181865	SONARTORI INFRAPROJECTS LIMITED
5	U61200WB2001PTC094054	SEAGLORY SHIPPING PRIVATE LIMITED
6	U52100WB2007PTC117320	PUSHPANJALI COMMODEAL PRIVATE LIMITED
7	U74140WB2008PTC126550	PATHEYO CONSULTANT PRIVATE LIMITED
8	U51909WB1994PTC063622	GANGAVATI DEALERS PVT. LTD.
9	U27100WB2007PTC115569	JAI DADA ISPAT PRODUCTS PRIVATE LIMITED
10	U70102WB2011PTC157494	DISHA NIKETAN PRIVATE LIMITED
11	U74200WB2010PTC142956	MODULAR ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED
12	U63000WB2010PLC154670	ASPOLIGHT TRANS LOGISTICS LIMITED
13	U72200WB2006PTC108669	INOVA INFOCON PVT LTD
14	U72200WB2009FTC135452	CMA CGM SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
15	U51909WB2011PTC168229	LIFESTYLE AUTOCITY PRIVATE LIMITED
16	U51909WB1997PLC085639	CAPTRANS SHIPPING LTD
17	U18101WB2003PTC096540	SURESH KUMAR AGARWALA TEXTILES PRIVATE LIMITED
18	U20219WB1992PTC056729	MARUTI OVERSEAS PVT LTD

1	2	3
19	U23201WB2002PTC095058	PRAKRITI BIOTECH PRIVATE LIMITED
20	U45400WB2008FTC129832	GREATER RAIGARH INFRACON PRIVATE LIMITED
21	U51909WB1991PTC052687	CRYSTAL VALVES MANUFACTURING COMPANY PVT. LTD.
22	U31100WB2007PTC115448	FANCY ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED
23	U52100WB2010PTC150538	PIPLE TREE MARKETING PRIVATE LIMITED
24	U65929WB1989PTC047526	BANALATA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
25	U01122WB1996PTC076766	SHRISTI HORTICULTURE PVT LTD
26	U27204WB2009PTC137511	GROWELL MINERALS PRIVATE LIMITED
27	U70109WB2011PTC192058	PANORAMA INFRACON PRIVATE LIMITED
28	U27209WB1997PTC085641	LENA TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
29	U25200WB2009PTC140438	JUNCTION IMPEX PRIVATE LIMITED
30	U67120WB2006PTC111275	LSI POWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
31	U72900WB2011PTC171386	THIRTEEN.NET OUTSOURCING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
32	U74993WB2009PTC138913	B P VIDEO ANALYTICS PRIVATE LIMITED
33	U32109WB1981PTC033537	BOSE ELECTRONICS PVT LTD
34	U74999WB1993PTC058794	METCALFE TEA SERVICES PVT. LTD.
35	U40300WB2010PLC143755	EMARS POWER LIMITED
36	U60100WB2005PTC102182	COUNTRYWIDE HANDLING PRIVATE LIMITED
37	U60100WB2005PTC102362	INLAND LOGISTICS PRIVATE LIMITED
38	U16002WB1964PTC026247	MANTU BIRI FACTORY PVT LTD

D. N. CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Cochin Alliance Bank Limited

Ernakulam-682021, the 24th April 2014

No. 560(3) MCA/ROC-Ernakulam/sec 560/2014/00003 --Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s COCHIN ALLIANCE BANK LIMITED unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in